

द्वितीय
हिन्दी साहित्य का इतिहास

अध्यापन अवधि - 4 घण्टे

आवधिक नूतनकरण - 10 अंक
कुल अंक - 100

निर्देश :

1. संपूर्ण पाठ्यक्रम में से पाँच अनिवार्य बहु प्रश्न पूछे जाएँगे। 2x5=10
2. इस प्रश्न-पत्र के पाठ्यक्रम में कुल चार खण्ड हैं। प्रत्येक खण्ड से दो-दो दीर्घ प्रश्न दिए जाएँगे और परीक्षार्थी को प्रत्येक खण्ड से एक-एक प्रश्न का उत्तर देना अनिवार्य होगा। इस प्रकार कुल चार दीर्घ प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य होगा। प्रत्येक प्रश्न 15 अंक का है। 15x4=60

खण्ड-एक

साहित्येतिहास से अभिप्राय, साहित्येतिहास दर्शन, हिन्दी साहित्येतिहास की पूर्वपीठिका एवं परम्परा, हिन्दी साहित्येतिहास के आदिकाल के नामकरण एवं काल-निर्धारण की समस्या, आदिकाल की परिस्थितियाँ एवं प्रवृत्तियाँ

खण्ड-दो

भक्तिकाल के उदय एवं विकास के कारण, भक्तिकाल स्वर्णयुग क्यों है? भक्तिकाव्य की चारों धारों की प्रवृत्तियाँ, भक्तिकाल की परिस्थितियाँ

खण्ड-तीन

रीतिकाल के नामकरण की समस्या, रीतिकाल की परिस्थितियाँ, रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध एवं रीतिगुप्त काव्य की प्रवृत्तियाँ, रीतिकालीन गद्य साहित्य, रीतिकाल के कवियों का आचार्यत्व

खण्ड-चार

आधुनिक काल की पृष्ठभूमि, भारतेंदु युगीन काव्य की प्रवृत्तियाँ, द्विवेदी युगीन काव्य की प्रवृत्तियाँ, प्रभाकर की प्रवृत्तियाँ, प्रभाकरवाद एवं कथी कथेवा की प्रवृत्तियाँ, साहित्येतिहास के आदिकाल के नामकरण एवं काल-निर्धारण की समस्या, आदिकाल की परिस्थितियाँ एवं प्रवृत्तियाँ, भक्तिकाल के उदय एवं विकास 18

इसमें व्याख्या भाग नहीं है।

पुस्तक सूची

1. हिन्दी साहित्य का इतिहास, लेखक आचार्य रामचन्द्र शुक्ल, प्रकाशक नागरीप्रचारिणी सभा क की (वाराणसी)
2. हिन्दी साहित्य की भूमिका, लेखक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, हिन्दी ग्रन्थ स्ताकर, बनारस
3. हिन्दी साहित्य का इतिहास, सम्पादक डॉ. नगेंद्र
4. हिन्दी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, लेखक डॉ. राम कुमार वर्मा
5. हिन्दी साहित्य का अतीत (भाग एक एवं दो) लेखक आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र
6. साहित्येतिहास, संरचना और स्वरूप, सुमन राजे, ग्रन्थानु कानपुर
7. स्वातंत्र्योत्तर हिन्दी साहित्य का इतिहास, लक्ष्मीसागर चार्मण्य, राजपाल एण्ड सन्स, दिल्ली
8. हिन्दी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास (दो खण्ड) मणपतिचन्द्र गुप्त, लोकभारती प्रकाशन, इलाहाबाद
9. हिन्दी साहित्य का इतिहास, हरिश्चन्द्र वर्मा एवं रामनिवास गुप्त, मथन पब्लिकेशन, रोहतक

Signature
7/11/17

Signature